



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 पौष 1936 (श0)  
(सं0 पटना 61) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 दिसम्बर 2014

सं0 22/नि0सी0(वीर0)-7-06/2009/2057—श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), द्वारा बरती गयी अनियमितता के विरुद्ध उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में वर्ष 2008 के बाढ़ अवधि में पूर्वी कोशी एफलक्स बॉध के डाउन स्ट्रीम कट एण्ड में कराये गये सुरक्षात्मक कार्य में बोल्टर क्रेटिंग कार्य में Void की मात्रा 20 प्रतिशत रखने के निदेश के बावजूद अप स्ट्रीम कट एण्ड में इसी तरह के कार्य में 30 प्रतिशत वायड की कटौती की गयी। इस तरह से 16.52 प्रतिशत अधिक बोल्टर की मात्रा के विरुद्ध 4,53,428/- (चार लाख तिरपन हजार चार सौ अठाईस रुपये) का अधिक भुगतान होने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-398 दिनांक 15.05.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-19 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया।

प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत इनको निम्न दण्ड दिया गया:-

- (1) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।
- (2) निंदन वर्ष 2008-09

उपर्युक्त दंड के विरुद्ध इनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन दिया गया। पुनर्विलोकन आवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार करते हुए श्री सुनील कुमार को दंड मुक्त करने पर निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री कुमार को दोषमुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश श्री सुनील कुमार को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र झा,

सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 61-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>